

### SURAJ PRODUCTS LIMITED

Registered Office & Works:

CIN: L269420R1991PLC002865

Vill.: Barpali, P.O.: Kesramal, Rajgangpur, Dist.: Sundargarh, Odisha, India, PIN: 770017

Tel: +91-94370 49074, e-mail: info@surajproducts.com, suproduct@gmail.com

www.surajproducts.com

Dated: November 03, 2025

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
(Department of Corporate Services)
Floor 25, P.J.Tower, Dalal Street
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Subject: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We are enclosing herewith copies of newspaper cutting published pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as detailed herewith:

Paper cuttings of "Business Standard" (English & Hindi Newspaper) published on November 03, 2025 and Utkal Mail (Oriya News Paper) published on November 02, 2025 regarding publication of Notice of Board Meeting to be held on Monday the 10<sup>th</sup> day of November, 2025 to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company, for the quarter and half year ended September 30, 2025. Copy of newspaper cuttings in this connection are attached for your reference.

Kindly take the same on record.

Thanking you, Yours Faithfully For Suraj Products Limited

ANANTA
Dayab is grattly ANAIR HARVAW
HATLA
HATLA
NARAYAN

KHATUA

KHATUA
A.N. Khatua

Company Secretary

Copy to:

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Kolkata – 700001

Encl. as above

### ରାଉରକେଲାରେ ଦୁନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସସ୍ତାହ ପାଳିତ

## ସମୟଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରା ଯାଇପାରିବ : ବ୍ରିଜେଶ ରାଏ ଯୋଗରେ ଧ୍ୱଂନୀତ ମୁକ୍ତ ନ୍ଦ୍ରାରଣ ସ୍ଥେତ୍ନତା ସ୍ଥାହ୍ୟ ୨୦୦୬

ଆସୁଦ୍ଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ

ରାଉରକେଲା., ୦୧/୧୧ (ନି.ପ) ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ରାଉରକେଲା ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଟିଡିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେୟର ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ନୀତି ସପ୍ତାହ ପାଳନ ନିବାରଣ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦୂର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି 'ଦୁର୍ନିତି ନିବାରଣ : ଆମ ସାମୁହିକ ଦାୟିତ୍ୱ'। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମାଂଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଉପମହାନୀରିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବ୍ରିଜେଶ ରାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟଙ୍କ ମିଳିତ

ସହଯୋଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରା ଯାଇପାରିବ । ଯୁବ ପିଢିମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କଲେ ହିଁ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସୁନିଣ୍ଠିତ ହେବ । ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ଅଧାପକ ସଂଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବଲ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି

ନୀତି ନିବାରଣ

ପୁନ୍ନ ନିବାରଣ ବିଭାବ

ପତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ନିବୃତ ରହିବା ସହିତ ସଚୋଟ୍ଟତା ର ସହିତ ସମୟେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସମୟଙ୍କୁ ନିଜ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଇଜ, ବିତର୍କ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଆୟୋଜିତ

ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ କୃତି ପ୍ତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା

ଏହା ପୂର୍ବରେ ଆଜି ସକାଳେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆଇଟିଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମୁନିସିପାଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଦୁର୍ନିତି ନିବାରଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷୀ ର ମହିଳା ଆଦି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରକ୍ତ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଡେପୁଟି କେଲକ୍ଟର ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ରାଉରକେଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପଦାନ କରିବା ସହିତ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ । ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଯୋଗେଶ ପ୍ରସାଦ ପଟେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା ସୀମା ଫାଡିମା ଏକ୍ଲା ମଂଚ ପରିଚାଳନା କରଥିଲେ ।

## ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଜନ୍ମୋହବରେ ନିଶାନ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ



ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ କମିଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଶାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଶାନ

ଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧିଯ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତ୍ରିଶକ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ନିଶାନ ଯାତ୍ରା ପହ<sup>®</sup>ବା ସମୟରେ, ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଟିଥିଲା । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କ ଦରବାରକ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ବିର୍ସି ଡାହର ରୋଡ୍ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କ ଦରବାର ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା । ବାବାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ସାଜସଜା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା କାରିଗରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାରା ବିଶାଳ ଫୁଲ ଦରବାରକୁ ସଜାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସଜାଯିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯିବା ସହ ବାବାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଥିଲା ।

### ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ନ ସସ୍ତାହ

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡକ୍ଟର ବିଭୁରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭିଜିଲାନ୍ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥବଲା । ଏଥିରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ପ୍ରାଧାପିକା, ପ୍ରାଧ୍ୟପକ, କର୍ମଚାରୀ ଓ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କିପରି ଦୁର୍ନୀତି, ଭୁଷାଚାର ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଧାପିକା ଡକୁର ସଂପାଦିକା ମହାନ୍ତି ଏକ ଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ନୀତି ସଚେତନତା ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖ୍ଥଳେ । ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ସଚେତନତା ଆରୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଶେଷରେ ସମୟେ ମଳିତ ଭାବେ ଶପଥ

### ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ୧୨୦ କେଜି ଗଂଜେଇ ଜବତ

ରାଉରକେଲା, ୦୧/୧୧ (ନି.ପ୍ର): ରାଉରକେଲା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ଜିଆରପି ରାଉରକେଲାର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ରାଉରକେଲା ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୧୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଂଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାଉରକେଲା ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ରାଉରକେଲା କିଆରପି ଟିମ୍ ୪ ନଂବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଦୁଇଟି ଧଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଶଇ ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଗଗୁଡିକୁ ପାର୍ସେଲ ଅଫିସକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ନିପର କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ତ୍ତ ଯାଂଚ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଗଂଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଳିଆରପି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ଏନଡିପିଏସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରୟ କରିଥିଲେ ।

## ସାଇଭେଲିଠାରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା

କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ

ଏକାଦଶୀ ମାସିକ କୀତିନ ଦ୍ୱାରା

ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ

ଭଜନ ଗାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ

ସୁମଧୁର ଭଜନ ଗାନ କରି

କୁଆଁରମୁଣା, ୦୧/୧୧ (ନି.ପ୍ର) : ଯମୁନାନାକିସ୍ଥିତ ସାଇ ଭେଲି ଓ୍ୱାର୍ଲ୍ ଅନୁଷାନ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଂଟ ଏଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ ଏକ ଦିନିକିଆ ନିଶାମକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହାକ ସାଇଭେଲି ଓାର୍ଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଂଟ ଏଣ ଟେକୋଲୋଜି ଅନୁଷାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ଦିପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସେମିନାର କୁ ଉହ୍ମାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ଅତିଥି କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ, ବିଡି, ଗୁଠୁଖା,ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦୁବ୍ୟ ଉପରେ ସଚେତନ ତା କରାଇଥିଲେ ।

ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କି.ଏମ. ରାଉଲକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଂଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜିତ ମୋହନ ପୂଜାରୀ, ପୋଲିସ ଇନ୍ପେକ୍ଟର କ୍ରାଇମ ବିଭାଗର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା,

ରୋଟାରୀ କୃବର ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତି

ଉସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ

ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଥଶୀଳ କରିଥିଲା ।

ସତର୍କତା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହର ଅଂଶ

ଡକ୍ଟର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏଥରେ ସାଇ ଭେଲି ଅନ୍ଷାନର ବିସିଏ ବିବିଏ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାଚକୁରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ସାଇ ଭେଲି

ଓ୍ଞାଲ୍ଲ ମ୍ୟାନେଜମେଂଟ ଏଷ

ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଧକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପଣାଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧନରେ ଅନୁଷିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ରିୟା ମୁଖାର୍ଜୀ ମଂଚ ଅଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅତିଥ୍ମାନେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେବ ଆଜିକାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୃତ୍ ସାମିଲ ହେଉଛଡି ଯାହା ପରିବାର, ସମାଜ ପାଇ ନିନ୍ଦନୀୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି । ସ୍ୱତନ୍ତ ଅତିଥି ମିନତି ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ କି ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ ଦେଶକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ସମାଜରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।

ଏହି ଯୁବ ପୀଢ଼ିମାନେ ନିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଆଜିର ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ରିସର୍ଷ ପର୍ସନ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜିତ ମୋହନ ପୂଜାରୀ, ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ ବିଭାଗର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗାଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ଅବଗତି କରାଇଥିଲେ l

### ପଣ୍ଡା, ଉକ୍ଳ ମେଲର ସାୟାଦିକ ଆରଏସପି ପକ୍ଷରୁ ସତକତା ସଚେତନତା ସସ୍ତାହ

### ପାଳନ ଅବସରରେ ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜିତ

ରାଉରକେଲା, ୦୧/୧୧ (ନି.ପ): ସେଲ୍, ରାଉରକେଲା ଇୟାତ କାରଖାନା (ଆରଏସପି)ର ସତର୍କତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଖୁଂଟଗାଁର ପିଏମଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗ୍ରାମସଭାର ଆୟୋଜନ କରଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରଏସପିର ସତର୍କତା ବିଭାଗର ଜିଏମ ତଥା ଏସିଭିଓ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ଭାରତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସିଏସଆର ବିଭାଗର ଜିଏମ ଇନ-ଚାର୍ଜ ସୁଶ୍ରୀ ମୁନମୁମ୍ ମିତ୍ର, ସତର୍କତା ବିଭାଗର ବିଭାଗର ଡ଼ିଜିଏମ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ବଂଶଲ ଓ ଶ୍ରୀ ଏସ. କେ. ଏସ. ରାଜପୁତ, ସିଏସଆର ବିଭାଗର ଡ଼ିଜିଏମ ଶ୍ରୀ ଟି. ବି. ଟସୋ, ଏବିଇଓ ଶ୍ରୀ ବି. କଛୁଆ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧିକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ତନୁଜା ତତ୍ତୀଙ୍କ ସହ ୟୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୁଡିନିଧ୍ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ଥାନୀୟ କତ୍ୱପକ୍ଷ ଏବଂ ଆରଏସପିର ଅଧିକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ I

ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମୟଙ୍କୁ ନିଷାପରାୟଣତା ଶପଥ ପାଠ କରାଇବା ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାମ୍ହିକ ସତକିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ସୁଶ୍ରୀ ମୁନମୁମ୍ ମିତ୍ରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସାଧୁତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ



ଆଗକୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଡା ଟକ୍କର ହେଲେ ଭାରି ଖୁସି ଭୋଟର ଚାକିରୀ ଉପରେ ଚାକିରୀ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ଦୂର ।



କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁମ ଆରୟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ହାତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସାଧୁତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରୁଥିବା

ୟୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୈତିକ ଆଚରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଶିଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷାନିକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂବିକ ଆରୟ ହୋଇଥିଲା | ପ୍ରାରୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ

ସ୍ଥୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଶ୍ଳୋକ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବକୃତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପୃତିଭା ଏବଂ ସଚେତନତା ପଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କବିତା ପାଠ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ପ୍ଦର୍ଶନ ମଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର

ଭାବରେ ଅନୁଷିତ ବିଭିନୃ ପ୍ତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରୟାର ମଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରୟରେ ସୁଶ୍ରୀ ତନୁଜା ତନ୍ତୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସମାସି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ସତର୍କତା ବିଭାଗର ଏଜିଏମ ଶ୍ରୀ

ପରିଶେଷରେ ଆରଏସପି, ଅବନୀ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆରଏସପି ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ସହ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ନଭେୟର ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସତର୍କିତା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ– ୨ ୦ ୨ ୫ ପାଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସପ୍ଠାହ ପାଳନର ବିଷୟବସ୍ତ୍ର ରହିଛି 'ସତର୍କତା: ଆମର ସହଭାଗୀ ଦାୟିତ୍ୱ' ।

### ଆରଏସପି ସାଇକେଲ୍ ଚାଳକ ଦଳ ସୟଦ୍ଧିତ



ରାଉରକେଲା, ୦୧/୧୧ (ନି.ପ୍ର): ବିଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେଲ୍, ରାଉରକେଲା ଇୟାତ କାରଖାନା (ଆରଏସପି) ସାଇକ୍ଲିଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୧୬ତମ ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର/ସବ୍-ଜୁନିଅର ଏବଂ ଯୁବ ଟ୍ରାକ୍ ସାଇକେଲ୍ ଚାମ୍ପଅନସିପ-୨୦୨୫ରେ ଉକ୍ଷତା ପ୍ରଦଶନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆରଏସପି ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟାଇମ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣରେ ଟ୍ରାଏଲରେ ୨ଟି ସ୍ପର୍ଷ ଏବଂ ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସୁଟ୍ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଗରେ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଷ ଏବଂ ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ବଣାଇ, ୦୧/୧୧ (ନି.ପ୍ର): ବଣାଇ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବୁକ୍ ଅଧୀନ ବନେଇକେଲା ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ପଂଚାୟତର ବଡଗାଁ ଗ୍ରାମର ସାପ୍ତାହିକ

ହୋଇଥିଲା । ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ ଏସ୍ ପାତ୍ର, ରୋହିତ ହେୟମ, ଆଂଚଲ ସାହୁ, ପ୍ତମ ପରମାଣିକ, ଆର ଏସ୍ ଉପାଂଶୁ ଏବଂ ସ୍ରଭ ମହାଳିକ ରହିଛଡି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସୁଟ୍ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଷ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିବା ଆଂଚଲ ସାହୁ ଆରଏସପି ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ।

ହାଟରେ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣରେ ଆରୟର

ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା

ଗାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟ ଆରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ

ସ୍ଚନାଫଳକ ଲେଖାଯିବାର ନିୟମ

ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି

ସୂଚ୍ନାଫଳକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ

ନାହିଁ । ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ

ଆରୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ

ହେବାକୁ ଥିବା ପିଣ୍ଡିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ

ମାତ୍ର ୬ ଇଂଚର ମାଟି ଖୋଳାଯାଇ

ବେଟାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଫଳରେ ଫଳକ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ

ବିଶ୍ୱୟସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏହା ୧୦

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ

ପାଇଛନ୍ତି । ପଂଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ

ଅଧ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍

ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ

କରିଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର କାମରୁ ଯଦି

ସ୍ଥାନୀୟ ପଂଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ

ନିବୃତ ନ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ

ଦିନରେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହା

ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋନାତ୍ନାକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ

କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଥାପିତ ନିଃଶୁଲ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀପିକା ଇୟାତ ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ନବମ ଶେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମରେ ସହର ସେବା ବିଭାଗର ଜିଏମ ଶୀ ଅସୀମ ସାବତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ କରିବା ସହିତ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୟର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଆର ଏନ୍ ପାଢ

#### **CHANGE OF NAME** Tanvi Agarwal, D/o. Rajesh

Agarwal and W/o. Gouray Gupta, resident of F/8, Civil Township, Rourkela-769004 declare that I have changed my name to 'Tanvi Gupta' post marriage vide marriage certificate No. 231711500391 of 2023 issued by the office of Marriage Officer, Panposh, Dist. Sundargarh, Odisha dtd 05.08.2023. Now onwards shall be known as **Tanvi Gupta** for all future purposes.

#### ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ରେଳପଥ

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର-୧ **ଶୂଦ୍ଧିପତ୍ର ଟେଷର ବିଷୟି ନଂ.** ଏସଏନଟି-ଆଁର-୨୦୨୫-୧୭-ଶୁଦ୍ଧ-୧, ତାରିଖ **ଟେଷର ବିଷ୍ୟୁ ନଂ.** ଏସଏନଟି-ଆର ୨୦୨୫-୧୭, ତାରିଖ: ୧୭.୧୦.୨୦୨୫ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିବର୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ: ସଙ୍କେତ ଓ ଦୂରସଂଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ: (୧) ପିପି ୟାଉଁର ଏଫଏମଓାଇଟେ ଶଂଟିଙ୍କ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା (୨) ରାୟପୁର ମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଡିହି ଟ୍ରାକ୍ ସର୍କିଟ୍ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଏମଏସଡିଏସିଡ ତୁ । ଷ୍ଟ ଏକାଂତ୍, ଏହା ଏହା।ଡ଼ଡ଼ାଳା 'ଏହାଏଏଡ଼'ଏସର ପ୍ରାବଧାନ । (୩) ମରୋଦାରେ ନୂଆ ଶଂଚିଗ ନେକ୍ର ନିମାଣ । (୪) [ଅବଶିଷ୍ଟ ନାଯ୍ୟା ବିଳାସପୁର-ଦୂର୍ଗ - ସଂପୂର୍ଷ ରେଲ୍ ନଦୀକରଣ (ପ୍ରାଥମିକ) ୪୭.୪ ୨ ୫ ଟ୍ରାକ୍ ବି.ମି. । ୍ଟ୍ର.୧୧.୨୦୨୫ରେ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ଉପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେୟରକୁ ଏଡଜ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି ।'

PR/R/S&T/AAA/201 ଦ.ପୂ.ମ. ରେ., ରାୟପୁଏ 🧗 South East Central Railway 💢 🕲 secrail



ରାଉରକେଲା, ୦୧/୧୧ (ନି.ପୁ) : ବିଳୁ ପଟ୍ନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧ ନଭେୟର ୨୦୨୫, ସକାଳ ୧୦.୩୦ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସର ନେତାଳୀ ସୁଭାଷ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ବିପିୟୁଟି ହାକାଥନ୍ ୨୦୨୫, ବିପିୟୁଟି ଟେକ୍ କାର୍ନିଭାଲ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ବିପିୟୁଟି ଓ-ଜବ୍ ୨୦୨୬ର ସଫଳତାର ସହିତ ଉହ୍ମାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୟୋଧ୍ତ କରି ବିପିୟୁଟିର ମାନ୍ୟବର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅମୀୟ କୁମାର ରଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନବସୂଜନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତନା କରିଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥ୍, ଓୟୁଟିଆର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ ହାକାଥନ୍ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନବସ୍ଥଳନ ପାଇଁ ଏକ ଲଂଚପ୍ୟାଡ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥ୍ ଭିଏସଏସୟୁଟି, ବୁଲାର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦିପକ କୁମାର ସାହୁ କିପରି ଏହି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା

ଦେବାରେ ମାଇଲଖ୍ରଂଟ ପାଲଟିଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ବିପିୟୁଟିର କୁଳସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ନିଶି ପୁନମ ମିଞ୍ଜ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିପିୟୁଟିର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍କାର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ରଥ, ହାକାଥନ୍ ୨୦୨୫ର ସଂଯୋଜକ ଡିସି ରାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପରିସର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାକାଥନ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ । ୨୨ରୁ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ



ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୁକ୍ରିୟା ପରେ, ବିପିୟୁଟିରେ ଅନୁଷିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପାଇଁ ୫୦ଟି ଦଳକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା I

ଚୟନିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ

ଏସ୍ଟିପିଆଇ, ରୁମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍, ଓକେସିଏଲ୍, ଓକାକ୍, ଏମ୍ଇଆଇଏଲ୍ ଏବଂ ଡିଏଡିବି ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦଶଟି ବାୟବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୋ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୬୦୦୦୦ (କେବଳ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମୋଟ ୨୨ଟି କଲେଜରୁ ୨୪୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଷାନର ପ୍ରତିନିଧ୍ତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ବିପିୟୁଟି ଟେକ୍ କାର୍ନିଭାଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ୨୪ଟି ବୈଷୟିକ, ୧୩ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ୧୪ଟି କ୍ୱୀଡା

ଯାହା ନଭେୟର ଏବଂ ଡିସେୟର ୨୦୨୫ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଇଭେଂଟଗୁଡିକ ବିପିୟୁଟିର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉସାହପୂର୍ଣ ଅଂଶଗୁହଣର ସାକ୍ଷୀ ହେବ I ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବିପିୟୁଟି ଓ-ଜବ୍ ୨୦୨୬ ଆରୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ବିପିୟୁଟିର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ, ତ୍ରୈମାସିକ ବିପିୟୁଟି ନ୍ୟୁଜ-ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ବିପିୟୁଟିର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟାବିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୟାବ ସହିତ ସମାରୋହ ଶେଷ

ହୋଇଥିଲା ।

ବର୍ଗରେ ୭ଟି ଲେଖାଏଁ) ସାମିଲ ଅଛି,

ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଟ୍

ବିଶ୍ବଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷିତ

### ସୁରଳ ପ୍ରଡକ୍ସ ଲିମିଟେଡ

CIN- L26942OR1991PLC002865 ପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ବରପାଲି, ପୋ.ଅ.-କେସ୍ରାମାଲ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଓଡିଶା-୭୭୦୦୧୭

ସେବୀ (ପରିଗଣନ ଦାୟବଦ୍ତା ଓ ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୫ର ନିୟମ ୨୯ ଅନୁସାରେ, ଏତଦ୍ୱାରା **ସୂଚନା** ଦିଆଯାଉଛି କି, ୩୦ ସେପ୍ଟେୟର, ୨୦୨୫ରେ ସମାପ୍ତ ତ୍ରୟମାସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷ ପାଇଁ କଂପାନୀର ସମୀକ୍ଷିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିବେଚନା ଓ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଂପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମ୍ୟଳୀର ଏକ ବୈଠକ ସୋମବାର, ୧୦ ନଭେୟର, ୨୦୨୫ରେ ଙ୍ଘାନୀର ପଞ୍ଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ତାରିଖ: ୦୧ .୧୧. ୨୦୨୫ ସ୍ଥାନ: ବରପାଲି

ବୋର୍ଡର ଆଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ୱା/- (ଏ.ଏନ. ଖଟୁଆ)

Priinted, published and edited by Sri Pitabasa Mishra on behalf of UTKAL MAIL PRAKASHANI PVT. LTD. at Mahabir Printers, C/23/1, Industrial Estate, Rourkela-04, Head Office: A/8, Commercial Estate, Rourkela-12, Ph.0661-2401949, Admn. Office: B/403, Sai Rose Apartment, Nandankanan Road, Raghunathpur Jali, Patia, Bhubaneswar-25, Cell:09437042623, E-mail:utkalmailnews@gmail.com (News & Features), utkalmaildelhi@gmail.com (Advt.) Managing Editor: Bibekananda Das, Editor: Pitabasa Mishra

property
Till 6,12,2025, latest by 04:00 P.M. at A.C. Market B
3rd Floor, (back side lift) 1 Shakespeare Sarani, Ko
700071, addressed to The Authorized Officer.

are available in the website of the Service Provider as mentioned below.

SCHEDULE - DESCRIPTION OF PROPERTY to be sold

Note that the provider as provider and parcel of land measuring about 33 decimals(more or ess), situated under Mouza Narrendrapur, J. no 28, LR Khatian no 217(old khatian no 2272), RS and LR Dag no 322, under PS aggeballaryor, within the limits of Shankarhat-II Gram Panchayat in the provider of the pro

rict Howarh.

Idelaied terms and conditions of the sale, please refer to the link provided secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-retail air ankis approved service provider MNS C1 India Private Limited at their we all https://www.banksauctions.com auction will be conducted online through the Bank's approved servicider MIs.C1 India Private Limited at their web ports://www.banksauctions.com.

Jaurantor's) that the below described immovable property mortgageocrangeous use counced creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorize Difficer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" an Whatsever there is "on 1911-12225 for recovery of Rs. Rs. 1,5709,85-56; (Ruger Stighteen Lakhs Seventy Thousand Nine Hundred Minsty-Six and Minsty-Five Minsty Property of the Common State of the Common State of the Minsty-Five Minsty Property of the Common State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State of Common State Line State of the Common State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State Line State of the Common State of the Common State Line State Line State Line State Line State Line State Line State

viso to Rule 9(1) of the Security Ir

#### industry giants speak, everyone listens.

When

In-depth Q&As with market mavens every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

#### **Business Standard Insight Out**

### **SKP SECURITIES LIMITED**

CIN - L74140WB1990PLC049032

Regd. Office: BioWonder, Level 17, 789 Anandapur, EM Bypass, Kolkata - 700107

ie: +91 033 6677 7000; Email : cs@skpsecurities.com; Website : www.skpsecuritie

EX	TRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER			SEPT 2025					
	(₹in Lacs)								
SI. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)					
1	Total Income from operations	1,084.65	1,125.59	3,855.35					
	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional item )	389.56	535.22	1,328.30					
	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional item )	292.75	395.30	998.95					
	Other Comprehensive Income	(2.33)	1.71	(8.90)					
	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and other Comprehensive Income for the period)	290.42	397.01	990.05					
6	Equity Share Capital (Face value Rs. 10/-)	680.88	680.88	680.88					
	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of the previous year)		_	4,390.64					
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each)								
ㅁ	1. Basic (Rs.)	4.30	5.81	14.67					
	2. Diluted (Rs.)	4.30	5.81	14.67					

PRIVATE WEALTH | BROKING | DISTRIBUTION | INSTITUTIONAL EQUITIES | INVESTMENT BANKING

STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH-I, KOLKATA E-AUCTION

APPENDIX - I.-V.A.

[ See Proviso to Rule 8(6) read with Rule 9(1)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financia
of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8(6) and read with rule 9(1) or recement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical possession of which habe been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is" "as is What is" and "Whatever there is" without recourse basis on 20.11.2025 at 1.00 am through websit https://banknet.com for recovery offs. x.128.31,78.022 (Equipses New Corre Eighty Three Lakth Thirties Thousand Seven Hundred Skty Nine And Paisa Twenty Two Only, including interest calculated upt 310.3.2013 pilos interest and costet chreating the other State Bank officers of the State Bank of India, secured creditor from VRUSAM SALES PVT LTD (the Borrower) and Sri Bhaven Kamdar & Sri Bhupendra Kamdar (the guarantors) and Sri Bhaven Kamdar & Sri Bhupendra Kamdar (the guarantors) and Sri Bhaven Kamdar & Sri Bhupendra Kamdar (the guarantors) and Sri Bhaven Kamdar & Sri Bhupendra Kamdar (the guarantors) and Sri Bhupendra Kamdar (the guarantors). ALES PVI LID (the Borrower) and Sri Bhaven Kamdar & : ambhavshree Realties Pvt. Ltd. (the Corporate guarantor). etails of the Properties, Reserve Price and EMD are as under:

1. Equitable mortgage of all that comprising of four storied brick built messuage is tenement of veiwlien jouse herediaments and premises containing approx 4258   8.8, 4,00,00.00 to standard the provided provid	SI No.	Description of Property/ Asset	a) Reserve Price b) EMD c) Bid Incremental Amount d) Encumbrances
	1.	Interment or dwelling house hereditaments and premises containing approx 42/16 as ft, super built up area on each floor fotal measuring 17032 a ft, super built up together with piece and parcel of revenue redeemed land thereunto belonging whereon or on part whereof the same is erected and built containing by admossurement an area of 6 cottah 9 chittacks be the same a little more or less stutele jving at and being premises No. 51, Kaik Kumar Mukherjee Lane, P.SShibur, District Howaris under the jurisdiction of Howaris Municipal Corporation, Ward No. 51, East Nivell Bengall in the name of Sambharwishee Corporation, Varian No. 51, East Nivell Bengall in the name of Sambharwishee Corporation, Varian No. 51, East Nivell Bengall in Imman of Sambharwishee Corporation, Varian No. 51, East Nivell Bengall in Imman of Sambharwishee Corporation, Varian No. 51, East Nivell Bengall in Imman of Sambharwishee Description of Imman of Sambharwishee Corporation, Varian Nivell Park Nivell	b) Rs. 8,40,000.00 c) Rs. 50,000.00 d) Municipal Tax Dues :

	SEARCH FOR PROPERTY	
Bank Website: https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/ auction-notices/sarfaesi-and-others	E-Auction Website URL: https://baanknet.com	Property Location Property ID - SBIN200005613676

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD, Division Madaun District Hamirpur H.P on behalf o Governor of H.P invites/re-invites the item rate bids, in electronic tendering system from

the eligible class for the works as detailed below on the table below:
Sr. Name of Work
No Estimated Starting EMD
cost (Rs.) Date for (Rs.)

		1	downlo		-ssion	ı		
			-ding Bid		of Bid	ı		
Ī	Construction State Cancer Institute	1,69,27,05,114/-	07-11-	3,38,54,200/-	25-11	ı		
	at Radha Krishanan Medical Col-		2025		2025	ı		
	lege Hamirpur at Jol Sappar Tehsil		from		upto	ı		
	Nadaun District Hamirpur (HP).		10:30		10:30	ı		
	(SH:- Part-I (Civil Work) Construc-		AM		AM	ı		
	tion of building portion including					ı		
	water supply & sanitary installation,					ı		
	Septic tank rain water harvesting					ı		
	system, Site development and ap-					ı		
	proach road etcetera) Part-II (Elec-					ı		
	trical work) SITC, Electrical					ı		
	installation, Lift, addressable fire					ı		
	fighting system, MGPS system,					ı		
	solar power generation, VRV/VRF					ı		
	system, DG Sets, CCTV surveil-					ı		
	lance, FPABX system, AV sys-					ı		
	tem)(Deposit Work) Time Limit:- 24					ı		
	Months Cost of form:- 1,70,000/-							
	e bidders are advised to note other details of tenders from the department website.							

Telephone No. 01972-298570, e-mail: ee-pwdndn-hp@hp On behalf of Governor of Hima,chal pr

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)
Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1,
11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road,

#### PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORNAMENTS

aments within the stipulated time in spite of several reminders. The Gold Jewellery aments pixed paid met he said loan accounts by the below listed bornowers will be in public Online private auction at our Branch premises on 25.11.2025 at 10.30 AM. The several paid of the public Online private auction at our Branch premises on 25.11.2025 at 10.30 AM. The several paid of the context the branch. The Bark reserves the to ta occept or reject any bid without assigning any reason whatsoever. Please refer to the auction does not get completed on the same day from same will follow the security and the second services of the second second services of the second second services of the second second

	Jana Small Finance Bank Ltd., Ground & 1st Floor, Plot No.28, Shivnath Complex, Contractor Colony, Ward No.6, Ge Road, Ric Durg-1, Bhilai-490023, India.					
2	31398730031210	17.18				
3	31398730028315	Seema Bareth	4.63			
Jan		ank Ltd., Ground & 1st Floor, Plot No of Mouza Transport Nagar, Korba-4				
4	46318740000187	Hemant Kumar Deshmukh	9.93			
	"Chewala	mall Finance Bank Ltd., Ground Floo House", Ph No.42, Opp.Railway Sta ank, Mahasamund, Circle Tahasil-49:	tion,			
5	31388740000264	Dayalu Patel	10.5			
		Finance Bank Ltd., 1st Floor, Malay F ad, Sundar Nagar, Opp. RBI, Raipur-				
6	6 46328730007731 Preeti Mandavi 2.4					
Dha	Jana Small Finance Bank Ltd., Ground Floor, H.No.16, R.I.Circle, Dhamtari Village, Vikashkhand Nagar, Dak Bangala, Dhamtari-493773, India.					
7 45098160000440 Devendra Kaushik 65.						
		Finance Bank Ltd., Ground Floor, P.H 5/02, Village Juna Corpn, Bilaspur-49				
8	46338730010112	Laxmikant Rathore	13.5			
9	46338730010000	Shashikant Yadav	49.7			
Jana	Jana Small Finance Bank Ltd., Ground Floor, Shop No.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, "Didwania Complex", Near Gaushala, Sadar Road, Tah. Champa, Post Champa, Beside Bank of Baroda-495671, India.					
10	10 32538160001003 Reshama Patel 51.67					
	Jana Small Finance Bank Ltd., First Floor, Gram Rawabhata, PH No.86, RNM Raipur 21, Jay Budadev Ward No.27, Tehsil Dharsiwa & District Raipur. Chattisgarh-493221.					
11						

16 45108730023032 Haffi manamma 16 45108730023974 Yashoda Nishad 16 Jasto Sanda Nishad Indian School Building Opp. Carmel Convent School Jagatpura Road, Raigan Chhattisgant-40804 Sdf-Authorised

13 45108730032150 Satyanand S 14 45108730032045 Sahodrabai (

**BURDWAN MUNICIPALITY** 

Mob. No. 9830739030

#### NOTICE

EAST COAST RALLWAY

E-Tonder Notice No. 51-58P-7

TEMPORE 7402-56, 2014, 271-10.202

Notice of the Work of the Wor

acurity: ₹ 1,14,400.00.
mider closing Date & Time: At 1100
ms. on 19.11.2025.

iable in website: www.ireps.gov.in

The prospective tenderers are advised
evisit the website 15 (fifteen) days before
date of closing of tender to note any

SURAJ PRODUCTS LIMITED

rsuant to Regulation 29 of the SEBI sting Obligations and Disclosure equirements) Regulations, 2015, IOTICE is hereby given that a neeting of the Board of Directors of

By order of the Boar te: 01.11.2025 A.N.Khatua ace: Barpali Company Secretary

### BURDWAN MUNICIPALITY

Tender ID 2025 MAD 935821 1 to 8

Chairman Burdwan Municipality

क्षांच्या के के एकम) Punjob national bank (Govt of India Undertaking)

PREMISES REQUIRED

Punjab National Bank requires a suitable ready-built and well-constructed hall-type building for Barulpur Chewdhury Bazar Branch, having a Carpet Avea of 1200 seft in-100 seft in-

HDFC BANK HDFC BANK LIMITED
REGISTERED OFFICE: HDFC Bank Hox
Senapthi Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai

Whereas, (for immovable property) (rure 6(1))
Whereas, The undersigned being Authorized Officer of HDFC BANK LIMITED under the Socialization and Reconstruction of Financial Assess and Enforcement of Security with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice on 98.35-2019 ut 13(2) of the outpined Art. Calling upon the Bower Mis. Moham Notor Distributors Pri LLd, having its registered office; 9, A.J. Close Mand, P.S. Prick Choros, Kolkain 70000, Sem Sendle Human Balaji at 822. Block-P. P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Kolkain 700005, Oscania Alsane Plane Balaja Selective PLLII, 22(1); A.J. Close, P.P.S. New Alippor, Alippor, P.P. Close, P.P. S. New Alippor, P.P. Close, P.P. S.

us 13(2) in "Business Standard" and "Apikaal", both Kolkata editions, on 15.05.2019.

The borrower and guaranton having feed to energy the amount, notice is hereighten to the borrower and guaranton and the public in general that the undereligined plan to the borrower and guaranton and the public in general that the undereligined the period of the per

Sharma, 2) Mrs. Shefall Sharma, Wio Nirmal Sharma. Please refer the appended auctions-chedule for necessary details:

KNOWN
Not have been supported by the second creditor. The purchaser, shall ascertain, the unpaid charges towards electricity, maintenance, fax, any other statutory dues and/or dues (RESERVE PRICE (IN RS.)

ESSERVE PRICE (IN RS.)

EARNEST MONEY DEPOSIT (Rupess Eighty-Two Thousand Three DEPOSIT (IN RS.)

Rs. 20.000/- (Rupees Twenty Thousand only) for each

AMOUNT

LAST DATE, TIME,
AND VENUE FOR
SUBMISSION OF
BIDS / TENDER BIDS / TEND WITH EMD DATE, TIME, AND VENUE FOR PUBLIC E-AUCTION

https://www.bankeauctions.com.
For any other assistance, like inspection the intending bidders may contact Mr. MD, Alam (1903810319) or Mr. Anupam Mullick (1967443355) officer of the Bank during office hours from 930 am. to 400 pr. 1.
This Notice should be considered as 15 Days' Notice to the Borrowers under proviso to Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Date: 13.11.2025. Flace: Kolkata

Authorized Officer,Axis Bank L

Authorized Officer; Axis Bank Ltd

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the undersigned is investigating the title to Office No. 09, 4th Floor, Rang Rasayan undersigned is investigating the title to Office No. 09. 4th Floor, Rang Rasayan Premises, admessuring approximately 200.54 sq. ft. capet area, situated ta 339/41, Samuel Street, Rawal Chembers, Vadagad, Mumbal-4000, ("Office Premise") together with 0.5 (Fleve) shares of Rs. 504-each bearing Distinctive Nos. 0.31 to 0.35 (both inclusive) under 5-hare Certificate No. 33 issued by Rang Rasayan Premises Coperative Society United, standing on a plot of land bearing CS. No. 375 of Marvld Division within the limits of Murland City. The above said Office Premise vas owned by Late RA,NIKANT SHAH (Son), and 4) Mrs. ABHA . Who expired on 27th November 2018, leaving behind 1) Smt. HEMLAS IN ARANIKANT SHAH (Wadrov), 2MR ASHA KAMAL SHAH (Marrica Na,NIKANT SHAH (Son), and 4) Mrs. AMI HARSHIT SHAH (Misch Daughter) as his only legal heirs. The original title documents brataining to the said office Premises have been irretrievably misplaced and are not traceable despite diligent search and efforts. It is understood that the said office Premise is free from all encumbrances, charges, disputes, claims, lenso or mortgages of any nature will be approached.

All person/s reputedly having any claim/s or right in respect of the aforesaid premises or any part thereof by way of inheritance, share, sale, mortgage, lease, lien, license, gift, possession, lease, lien, license, gift, possession, exchange, piedge, assignment, guarantee, trust, bequest, tenancy, transfer offitie orbeneficial interval when the control of the co

Mr. ROHIT VASANT SHINDE Advocate Bombay High Court, esh H. Jain, Office No. A/118, 1st Floor, Narayan Udyog Bhavan, Chivda Galli, Lalbaugh, Mumbai 400012

#### SURAJ PRODUCTS LIMITED

NOTICE is hereby given that meeting of the Board of Directors the Company will be held on Mond the 10th day of November, 2025 at the Registered Office of the Company t

By order of the Bo ate: 01.11.2025 A.N.Khatua lace: Barpali Company Secret

grussuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (Incorporation) Rules, 2014 (Reglenfor the Central Government Region, Mumbai In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and disuse (a) of Suchrule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the mallor of VIDIC REAL CORP PRIVATE LIBERT TO PRIVATE LIBERT LIBERT

PARESH LALITKUMAR BUDH

### District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai (1) City Malhotra House, 6th Floor, Opp. G.P.O., Fort, Mumbai - 400 001

tra House, 6th Floor, Opp. G.P.O., Fort, Mur FOR DEEMED CONVEYANCE OF

/Notice/1970/2025 Application No. 27/2025

Mr. Behram Darashaw Bhesania (Died)
Chief Promoter/lessees
His legal Heirs
3-1) Mrs. Vecera Nozer Bhathena
5-1) Mrs. Vecera Nozer Bhathena
5-1) Mrs. Vecera Nozer Bhathena
5-10 Mrs. Vecera Bhathena
6-10 Mrs. Vecera Bhathena

of the properties mentioned below.

Hearing of the said application were kept on 07.08.2025, 11.09.2025,
06.10.2025, 09.10.2025, 30.10.2025 On Principles of natural Justice
hearing of above mentioned case is fixed on dt. 27.11.2025 at 130.00

pm. to hear opponent parties as a last chance. Failure to remain present
by non applicant will result in expartee hearing of the application.

#### DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Place of land situated at p.1/404, of Tardeo Division, Jaywant Tower CHS Ltd.

Apartment 63, Tardeo, Mumbai- 400034 admeasuring the state of the sta Jaywant Apartment 6 438.33 Sq. Meters or th

Jaywant apartment \$3, Tardeo, Mumbai-400034 admeasuria, 333.354. Meters or thereabouts together with the building standing /constructed requested of conveyance by the Applicant Society. Those who have interest in said property may submit their say in titing with evidence within 15 days from the date of publication of this lice or upto next date of hearing and may remain present for hearing at office mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed of notody has any objection and further action will be taken.

Place: Mumbai
Date: 31/10/2025

Sd/Competent Authority and
District Deputy Registrar,
Co-operative Societies, Mumbai

#### BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL AT MUMBAI COMPANY PETITION NO CP / 229 / MB / 2025 IN THE MATTER OF

PETITION FOR REDUCTION OF SHARE CAPITAL UNDER SECTION 66 READ WITH SECTION 52 OF THE COMPANIES ACT, 2013;

IN THE MATTER OF

THE COMPANIES ACT, 2013 INCLUDING ANY STATUTORY MODIFICATION OR RE-ENACTMENTS THEREOF FOR THE TIME BEING IN FORCE AND INCLUDING RULES THEREUNDER; One BKC Realtors Private Limited CIN: U45500MH2018PTC307848 A private limited company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at One BKC, Viling, 407, PkO No. C-66, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051, Maharashtra, India

It may also be noted that a hearing has been fixed for Friday, 6th February, 2026 on which the Homble Tribunal shall hear the Company Petition. In case any creditor intends to attend the hearing, he should make a request along with his objections, if any,

Dated this 3rd day of November, 2025 at Mumbai

#### TRENT

Corporate Identify No.: L24240MH1952PLC008951.
ggisterd Office: Bombay House, 24, Horni Mody Street, Mumbai 400 001
Corporate Office: Front House, 6 Block, PitO No. C-60, Bandra Kurla
Complex, Bandra East, Mumbai 400 051
Tel: (91-22) 6700 8900: E-mail: investor/leations@trent-lata.com;

#### Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Presented Services of physical shares

Pursuant to SEB Contain No. SEB WHOMESON MED. PODIPPICIP202587
dated 7nd July 2025, all shareholders we informed that a Special Windows to
open for a period of aix months, from "July 2025 to 6" January 2026 to
facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares. This facility ser
rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in documents/
processior otherwise. Investors who have missed the caprier deadline of
3" March 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by
Transfer Agent I.e. MUFC interin fullar Private Limited at C 101, 247 Park,
Lal Bahadur Shastir Marg, Viktroli West, Mumbai 400883. The re-lodged
shares will be transfered only in dematerialised form subject to submission
of requisite documents and approval by the Company.

For Trent Limited

Complex Tel: (91-22) 6700 809

This is to notify all concerned members and Legal heirs of Chanda ARC Co-op. Hag. Soc. Ltd. that the following flat/pict has been sold: Flat/Pict Details: CS.427 Bhildshawe Division Flat/Pict Number: Room no. 18, B.I.T Chawl No. 6, Chandanwac Owner's Name Skaller's Divisional Trans.

Chrisbazar Road, Mumbai, Maharashtiri - 400 002.
Ohmer's Name (Seller): Principal Tenant - Virginia Joannes Dias (Legal Heirs: Corocicao Fernardo Gomes & Joannes Rockizino Dia Buyer's Name: Chirag Suresh Gosiya Sale Date: 23 Feb 2024
Area/Size: 126 Sq. Ft.
In accordance with the rules and regulations of Chandan Affordance of the control of the processed However, according to the society's procedures, membe legal heirs and residents are invited to raise any objections or concer regarding the sale within 15 days of the date of this notice.

Date: 3<sup>rd</sup> November 2025 E-mail: chandanarcchs@yn This notice gives a fair opportunity for anyone to object to the s ensures transparency within the society.

#### STEELCAST LIMITED



CIN: L27310GJ1972PLC002033

Regd. Office: Ruvapari Road, Bhavnagar - 364 005

#### **Extract of Standalone Unaudited Financial Results of the Company** for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025

(Rs. in Lakhs except EPS)

	Out of Full at Manual Data Week						
Sr.		Quarter Ended			Year to Date		Year Ended
No.	Particulars		30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)		30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1	Income from operations	10,665.05	10,668.55	7,535.04	21,333.60	15,279.70	37,338.75
2	Net Profit / (Loss) for the period	3,094.93	2,666.12	1,789.39	5,761.05	3,542.47	9,732.55
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)						
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	3,094.93	2,666.12	1,789.39	5,761.05	3,542.47	9,732.55
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	2,321.40	1,988.26	1,329.25	4,309.65	2,622.24	7,219.79
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
5	Total Comprehensive Income for the period	2,347.54	1,970.29	1,329.35	4,317.83	2,608.13	7,174.16
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]						
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Re.1/- per share)	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00
7	Other Equity excluding revaluation reserves				31,575.40		
8	Earnings Per Share (EPS) of Rs. 1/- each (Not annualized) (Refer note 3)						
	a) Basic (Rs.)	2.29	1.96	1.31	4.26	2.59	7.13
	b) Diluted (Rs.)	2.29	1.96	1.31	4.26	2.59	7.13

#### Notes:

- 1. The above is an extract of the detailed format of standalone audited financial results for the quarter and half year en September 30, 2025. The detailed results are available on the website of the NSE & BSE and also on the Compar
- september 30, 2025. The detailed results are available on the website of the NSE & BSE and also on the Company's website www.steelcast.net.

  2. The Board of Directors of the Company have declared second interim dividend at the rate of Rs. 0.36 per share (i.e., 36% of face value per share of Re 1.00) of the Company for the financial year 2025-26.

  3. The Board of Directors of the Company at their meeting held on July 31, 2025 approved the sub-division/split of each equity share of the Company having a face value of Rs. 5 each, fully paid-up into 5 equity shares having a face value of Re. 1 each, fully paid-up by alteration of capital clause of Memorandum of Association of the Company, Subsequently, the approval of the shareholders of the Company was obtained at the Annual General Meeting of the Company for July 31, 2025. Consequently, effective from record date of August 29, 2025 the authorised share capital and the paid-up share capital and the paid-up share substituted into 5 earlyst shares having a fear-value of Re. 1 each, The Earlings Der Share (PSS) of the capital were sub-divided into 5 equity shares having a face value of Re. 1 each. The Earnings Per Share (EPS) of the Company has been adjusted proportionately to reflect the increased number of shares post-split. The EPS for the current and comparative periods has been restated accordingly to ensure consistency and comparability in financial
- The full results along with the Limited Review Report have been posted on the Company's website at https://steelcast.net/pdf/quarterly\_result/MergedQ2FY26OutcomeSigned.pdf and can also be accessed by scanning the Quick Response (QR) code given below:

  For and On Behalf of Board of Directors of For and On Behalf of Board of Directors of STEELCAST LIMITED Sd/(Chetan M Tamboli)
  CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Date: 31.10.2025 Place: Bhavnagar



#### **Mahindra LIFESPACES**

#### Mahindra Lifespace Developers Limited (Consolidated)

CIN - L45200MH1999PLC118949

Tel.: 022-67478600 Website: www.mahindralifespaces.com

Registered Office : Mahindra Towers, 5th Floor, Worli, Mumbai - 400018

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2025

(Rs. In Lakhs)

				(,
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2025 Unaudited	Half Year Ended 30.09.2025 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2024 Unaudited
1	Total income (Including other income)	3,306	7,367	1,596
2	Loss for the period (before tax and exceptional items)	(4,533)	(10,175)	(5,037)
3	Loss for the period before tax (after exceptional items)	(4,533)	(10,175)	(5,037)
4	Share of profit of joint ventures and associates	9,607	19,409	3,638
5	Profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items and after share of net profit of joint ventures and associates)	5,074	9,234	(1,399)
6	Profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items and after share of net profit of joint ventures and associates)	4,791	9,917	(1,401)
7	Total comprehensive income / (loss) for the period [Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income / (loss) (after tax)]	4,791	9,917	(1,401)
8	Paid-up equity share capital (Face value of Rs.10/- each)	21,328	21,328	15,506
9	Earning per share (Face value of Rs. 10/- each) *	1		
	1. Basic (Rs.)	2.47	5.11	(0.83)
	2. Diluted (Rs.)	2.46	5.10	(0.83)

\* Basic and Diluted EPS for all periods are not annualised

1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors a their respective meetings held on 31st October, 2025. The unaudited consolidated financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2025 have been subjected to limited review by the statutory auditors.

2. Key Numbers of Standalone Financials Results:

(Rs. In Lakhs)

Quarter Ended 30.09.2025 Unaudited	Half Year Ended 30.09.2025 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2024 Unaudited
5,707	11,559	6,347
(1,897)	(6,189)	(71)
(2,451)	(5,833)	(59)
	30.09.2025 Unaudited 5,707 (1,897)	30.09.2025 Unaudited Unaudited 5,707 11,559 (1,897) (6,189)

3. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the Stock Exchange website, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website https://www.mahindralifespaces.com/investor-center/?category=quarterly-results. The same car



Dated: 31st October,2025

For and on Behalf of the Board Amit Kumar Sinha Managing Director & CEO

DIN: 09127387

#### संक्षेप में

#### रॉयल एनफील्ड की बिक्री 13 प्रतिशत बढी

प्रीमियम मोटरसाइकल बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री अक्टूबर में 13 प्रतिशत बढ़कर 1,24,951 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 1.10.574 इकाई बेची थीं। रॉयल एनफील्ड ने रविवार को बयान में कहा कि घरेलू बिक्री इस अक्टूबर में बढकर 1,16,844 इकाई हो गई, अक्टूबर, 2024 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 101,886 इकाई बेची थीं। कंपनी ने कहा कि हालांकि, अक्टबर, 2025 में उसका निर्यात सात प्रतिशत घटकर 8,107 इकाई रह गया, जो पिछले साल इसी इसी अवधि में 8,688 इकाई था। आवशर मोटसं लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्य अधिकारी थी गोविंदराजन ने कहा कि त्योहारी उत्साह के कारण देश भर से ब्राइकों की ओर से जबरदस्त

#### ओयो ने बोनस शेयर के लिए समयसीमा बढाई

ट्रैयल टेक प्लेटफॉर्म ओवो ने अपने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरधारकों के लिए संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( आईपीओ ) से संबंधित बोनस शेवर जारी करने के आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर से बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है। कंपनी ने शेयरधारकों को भेजे संदेश में कहा कि राक मतपत्र प्रक्रिया के दौरान उसे प्रतिक्रियाएं मिली हैं और उसने निवेशकों को उनके लिए उपयक्त बोनस विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया है। ओयो ने कहा, 'चयन की अवधि, जो मूल रूप से 1 नवंबर को समाप्त होने वाली थीं, वह अब नौ दिन बढ़ाकर 7 नवंबर, 2025

ontractors for the NieT No. 14 0/2025/A.P.A.S/BEL-I/2025 026, Memo No. 3902 / En, Date-0/10/2025. Last date of Bid ubmission for the NiET 19.11.2025 upto 10.00 H

ent Office

#### e-Tender Notice

ender's being invited for the civil works through e-procurement system from the bonafied contractors for the NieT No. 13/ 0/2025/A.P.A.S/BEL-I/2025-2026, Memo No. 3890 / En, Date 29/10/2025. Last date of Bis submission for the NIE 18.11.2025 upto 10.00 Hours. Fo ps://wbtenders.gov.in Sd/-

ystem from the bonafied ontractors for the NIeT No. 15 0/2025/A.P.A.S/BEL-I/ 2025 026, Memo No. 3904 / En, Date 0/10/2025. Last date of Bio ubmission for the NIET 9.11.2025 upto 10.00 Hours. Fo ttps://wbtenders.gov.in Sd/-

## सूरज प्रोडक्टस लिमिटेड

बोर्ड के आदेशानुस गंकः 01,11,2025 ए. एन. खटुका न बरपाली कंपनी संधिय

rederital of similar type of work: 1 Despur-I Panchayat Samiti. Submission Start Date 30.1.0.202 Submission Start Date 30.1.0.202 NIT-10), 31.10.2025 (NIT-11), Biu Submission end Date 1.6.1.1.2025 (NIT-10), 19.11.2025 (NIT-11), Bid Openin Jose 20.11.2025 (NIT-10), 21.11.202 NIT-11), For Details Prans. Vi-

### जीएसटी में सुधार से मारुति की पेय पदार्थों की बिक्री सितंबर तिमाही में छोटी कारों की बिक्री को रफ्तार

मुंबई, 2 नवंबर

एसटी सुधारों के बाद एसटा सुधारा क बाच मारुति सुजूकी इंडिया में छोटी कारों की हिस्सेदारी में तेजी से इजाफा हुआ है। देश की इस सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी को इस त्योहारी सीजन में नए ग्राहकों की कतार देखने को मिल रही है। ये ये ग्राहक हैं जो हालिया कर कटौती से उत्साहित होकर दोपहिया बाहनों से अपनी पहली कार लेना चाहते हैं। मारुति सुजूकी इंडिया के वरिष्ठ कार्य अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थी बनर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि जीएसटी सुधारों के बाद छोटी कारों में खुदरा हिस्सेदारी 20.5 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। अप्रैल से सितंबर की

अवधि में यह 16.7 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि छोटी कार श्रेणी में बुकिंग सबसे ज्वादा रही है। उन्हें अपने शोरूमों में नए प्रोफाइल वाले ग्राहक आते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'डीलरों के यहां मेजों पर हेलमेट रखे हुए हैं। हमारे शोरूम में ग्राहकों का ऐसा नया समूह आ रहा है, जो अपने दोपहिया वाहनों से अपग्रेड करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 हमारे शोरूम में यही लोगों को ला रहा है और इनमें से कुछ लोग इससे पहले कभी शोरूम नहीं आए थे।

बनर्जी ने कहा, 'हमारे पास मिनी-श्रेणी

works through e-procurement system from the bonafies contractors for the NIET No. 12 10/2025 (A.P.A.S/BEL-I/ 2025 2026, Memo No. 3868 / En, Date 29/10/2025, Last date of Bis submission for the NIET

10.11.2025 upto 10.00 Hours. Fr

Beldanga-I Development Bloc

E Tender Notice e-Tenders are being invited by the undersigned from bonafied agencies for 16 nos Civil and electrical work at different ward under "AMAR PARA AMAR SAMADHAN"

Programme of Bankura Municipality vide Tender

Reference No. WBMAD/BM

Reference No. WBMAD/IBM APASI/78/SL1-16/25-26 vide this office memo no. 3195/ VIII-14 dated 31/10/2025; VIII-14 dated 31/10/2025; MAD\_ 935895\_1-18 Bits ubmission closing date 20/11/2025 between up to 15:00 Hrs. (IST). The details of above tenders may be seen at http://wbtenders.cov.in

http://wbtenders.gov.in Sd/-Chairperson Bankura Municipa

HANNAGAR MUNICIPAL CORPORATI Poura Bhaban, Bidhannagar

(i) NIT No. 659/PWD/ROAD/BMC Date : 31/10/2025 (ii) NIT No. 660/PWD/ROAD/BMC Date : 31/10/2025

hin ward no. 22 (APAS SCHEME)

8.39 and Sector I, II, III under SMC lender I.D: (i) 2025, MAD 935913, 1 to 9 and (ii) 2025, MAD 935936, 1 to 3] in www.wibtenders.gov/in, Office Notice Board, Last date of Bid submission-24/11/2025 up to 3.00 p.m. Sdi-

E Tender Notice
e-Tenders are being invited
by the undersigned from
bonafied agencies for 08 nos
Civil and electrical work at
different ward under "AMAR
PARA AMAR SAMADHAN"
Programme of Bankura
Municipality vide Tender
Reference No. WBMAD/BM
APAS/78/SL1-9/25-26 vide
this office memo no. 3180'
VIII-14 dated 31/10/2025,
Tender IDs. 2025 MAD,
935931\_1-9 Bid submission
closing date 20/11/2025
between up to 15:00 Hrs.
(IST). The details of above
tenders may be seen at
http://wbbneders.gov.in
Chairperson

Chairperson nkura Municipality

ent Office

#### नए ग्राहकों की संख्या में हुआ इजाफा

- हालिया कर कटौती से उत्साहित होकर दोपहिया वाहनों से अपनी पहली कार लेना चाह रहे ग्राहक
- जीएसटी सुधारों के बाद मारुति की छोटी कारों में खुदरा हिस्सेदारी 20.5 प्रतिशत तक बढ़ी, अप्रैल से सितंबर की अवधि में यह 16.7 प्रतिशत थी
- इस रुझान से उत्साहित होकर कंपनी नया अभियान 'प्रगति का त्योहार' शुरू कर रही है ताकि नए खरीदार पूरा कर सकें अपना सपना
- इसके तहत कंपनी उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए फाइनेंसरों के साथ कर रही गढ़जोड़

लिए 25,847 बुकिंग थी और उत्पादन की कमी के कारण हम केवल 15,700 गाड़ियों की ही खुदरा बिक्री कर पाए। तत्पादन टीम बाजार की पिछली मांग के आधार पर अनुमान लगाती है और रातो लाइन क्षमता बदलना संभव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल छोटी कार वाली श्रेणी में बुकिंग खासी ज्वादा रही है। उन्होंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ग्राहकों को

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

युक्तो खेंक 😭 UCO BANK मुजी वि. सरीव एवं अध्यस्त्वन 3 और 4. सीवी खोक, संकरन र जीवराज

प्रतिशत जीएसटी स्लैब (चार मीटर से कम लंबाई के साथ पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी और डीजल के लिए 1,500 सीसी तक के इंजन वाली श्रेणी ) के तहत आने ारों की बुकिंग में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बड़ी कारों की बकिंग में 20 मृत्य पुर का पड़ा कार्रा कर पुनर में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जो 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती हैं। इस रुझान से उत्साहित होकर कंपनी नया अभियान 'प्रगति का त्योहार' शुरू कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

वे नए खरीदार अपने सपने को परा कर सकें। इसके तहत कंपनी उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए फाइनेंसरों के साथ गठजोड़ करेगी। बनर्जी ने कहा 'लोग मोबिलिटी की तलाश में हैं औ दोपहिया वाहन से चार पहिया वाहन में जा रहे हैं। हम शुरुआती स्तर के इन खरीदारों के लिए वित्तीय सहायता की अच्छी योजना देने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंसरों के साथ करार करने के अलाव

## कुमार के नेतृत्व में

अभीक दास

कॉम्निजेंट का तीसरी तिमाही का मजबूत प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि वह अमेरिकी आईटी कंपनी वर्षों की उचल-पुथल के बाद अब मजबूत सुधार की राह पर बढ़ रही है।

भगवून शुक्षार का घट भर बढ़ रहा हा कंपनी न तीसरी तिमाही में मजबूत बृद्धि दर्ज की हैं और उसने राजस्व बृद्धि के अनुमान बढ़ाए हैं। कंपनी अब इन्फोसिस पर अपनी बढ़त लगभग एक अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे उस रक्षान को पलटने में मदद मिलेगी कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों के बीच का अंतर तेजी

। कम होता दिखा था। सिर्फ तीन साल पहले इन्फोसिस ने लगभग बराबरी कर लो थी, जिससे राजस्व का अंतर 3 अरब डॉलर से घटकर कुछ सी मिलियन डॉलर रह गया था। लेकिन कॉम्निजेंट का राजस्व विश्त वर्ष (दिसंबर 2024) के अंत में 19.7 अरब डॉलर रहा, जबकि मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के जिए। इन्फोसिस का राजस्व 19.28 अस्त डॉलर था और अन यह अंतर बढ़ने वाला है। नैस्डैंक में सूचीबद्ध यह कंपनी (जो अपने पहले सीईओ फ्रांसिस्को डिस्जा के नेतृत्व में कभी आणी थी) हाल के वर्षों में ब्रावन हम्फ्रीज के नेतृत्व में लड़खड़ा गई और कमंचारियों की संख्या में बड़ी कमी, नेतृत्व में बदलाव, सीदों में धीमी वृद्धि से जुझती रही। हालांकि, सीईओ रवि कुमार के नेतृत्व में कंपनी का कायाकल्प गति पकड़ता दिख रहा है क्योंकि कंपनी बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहा है, बड़े सीदों की रफ्तार बनाए रख रही है और धीरे-धीरे मार्जिन बढ़ा रही है। कॉम्निजेंट ने बित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजस्व बृद्धि अनुमान को

6-6.3 प्रतिशत तक (स्थिर मुझ में) बढ़ा दिया है, जो पहले 4-6 प्रतिशत के दाबरे में था। यह बृद्धि एआई-आधारित समाधानों के साथ डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे के आधुनिकीकरण पर ग्राहकों के बढ़ते खर्च के कारण संभव हुई है। वृद्धि सभी व्यावसायिक क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी रही है। एचएफस्स रिसर्च के मुख्य कार्याधिकारी फिल फर्स्ट ने कहा, 'रवि के नेतृत्व में कॉन्निजेंट के लिए यह एक वास्तविक बदलाव की कहानी है। ा पुरा न जागानायत् का राष्य् यह एक वास्तावक बदलाव को कहानी है। कंपनी भटकाव के दीर से निकलकर एक स्पष्ट विकास पथ पर आगे बढ़ी है, जिससे मार्जिन, नेतृत्व का आत्मिक्श्वास और प्राष्टक जुड़ाव में सुधार हुआ है। रवि ने कॉम्जिंट की कार्यान्वयन लय को फिर से स्थापित किया है विकास को प्रिक्त किया है है, वितरण को स्थिर किया है और उद्देश्य एवं प्रदर्शन के जुड़ी संस्कृति को फिर से ऊर्जावान बनाया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब कंपनी इन्फोसिस और टीसीएस के साथ आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही है.

# बारिश में फिसली

अक्षरा श्रीवास्तव नई दिल्ली, 2 नवंबर

देश में लंबे समय तक रहे मॉनसून और भारी बारिश ने पेय पदार्थों के बाजार को प्रभावित किया, जिससे संगठित क्षेत्र की कंपनियों की विक्री में गिरावट आई। अटलांटा की पेय पदार्थ क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोका कोला के मामले में भारत में खराब मौसम की वजह से बिकी में गिरावट आई। कोका कोला के मुख्य परिचालन

अधिकारी हेनरिक ब्राउन ने कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान करने के बाद विश्लेषकों को बताया 'प्रशिया प्रशांत क्षेत्र प्रे बताया, एएशया प्रशास क्षत्र म प्रत्येक परिचालन इकाई की बिक्री में गिरावट आई, जिसकी वजह उपभोक्ता खर्च में कमी, उद्योग का कमजोर प्रदर्शन तथा भारत व फिलीपींस जैसे कुछ बाजारों में खराव मौसम रहा।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में कंपनी के यनिट केस वॉल्यम में एक प्रतिशत की गिराबट आई। अलबता इस बीच कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी जेम्स क्विंसी ने कहा कि भारत में आने वाले वर्षों में बिक्री में युद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं। प्रतिस्पर्धी कंपनी पेप्सिको की

विकी को भी देश में लंबे समय तक रहे गॉनसून से झदका लगा। कंपनी ने कोला बाजार में बढ़ती प्रतिस्पध की ओर भी इशारा किया, जिससे बिक्री पर और असर पड़ा।

6 सितंबर को समाप्त हुए 12 सप्ताह के दौरान कंपनी के अंतरराष्ट्रीय पेय कारोबार की श्रेणी में युनिट वॉल्यम एक प्रतिशत की गिराबट आई। कंपन ने कहा कि यह मुख्य रूप से मेक्सिको और भारत में गिरावट को दर्शाती है. जिसकी कछ हद तक भरपाई पश्चिम एशिया में

वृद्धि से हुई। पेप्सिको के चेयरमैन और मुख्य



कोका कोला और पेप्सिको की बिकी को देश में लंबे समय तक रहे मॉनसन से झटका लगा

कार्य अधिकारी रेमन लैगुआर्टा ने अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद विश्लेषकों को बताया था, 'हम भारत में वृद्धि देख रहे हैं। भारत पर मौसम का ज्यादा असर पड़ा है और पेय श्रेणी में कुछ प्रतिस्पर्धी स्थिति है, जिसका असर शाबद कुछ तिमाहियों तक वृद्धि पर पड़ेगा, लेकिन फिर भी यह मजबूती से वापमी करेगी।

भारत में पेप्सिको की बोतल बनाने वाली कंपनी वरुण बेवरेजिज ने भी इस बात पर सहमति जताई। प्रबंधन ने पिछले सप्ताह तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा, 'पूरे भारत में लंबे समय तक की बारिश के कारण घरेलू बिक्री कम रही।'

वरुण बेवरेजिज के चेवरमैन रवि जयपुरिया ने विश्लेषकों के साध नतीजों के बाद बातचीत के दौरान कहा, 'मौसम अब भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जहां कहीं भी मौसम में कुछ राहत मिली है, हम दो अंकों की वृद्धि दर से बढ़ रहे हैं, यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में खराब मौसम के बावजद भी।'

#### कैफे पर एकमत नहीं ...

पृष्ठ 1 का शेष

**जानकारी** के लिए सायम को ईमेल किया गया मगर खबर लिखे जाने

क जवाब नहीं आया। सितंबर के मसौदे के अनुसार छोटी कारें ईधन-बचत तकनीकों जैसे रोजेनरेटिव ब्रेकिंग, स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, कम रोलिंग-रेजिस्टेंस वाले टायर या बेहतर एरोडायनामिक के इस्तेमाल के लिए रियायत का दावा कर सकती हैं। छोटी कार के लिए कुल कटौती 9 ग्राम/किमी तक सीमित है। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा. मानदंडों को पूरा करने वाली छोटी कार इस प्रावधान के तहत पूरे 9 ग्राम का लाभ प्राप्त कर सकती है।

अब वॉल्यूम डीरोगेशन फैक्टर बीडीएफ) को देखें, जो गुणक है जिसका उपयोग किसी विनिर्माता के औसत डाइऑक्साइड उत्सर्जन की गणना में किया जाता है। यह हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक चाहनों जैसे कुछ कम उत्सर्जन वाले वाहनों को एक से अधिक वाहनों के रूप में गिनने की अनुमति देता है, जिससे कागज पर

बेडे के कुल उत्सर्जन में प्रभावी रूप

बड़ क कुल उत्सजन म प्रभावों रूप में कमी आती है और अनुपालन आसान हो जाता है। जुन 2024 के मसौदे में बॉईई ने इलेक्ट्रिक थाहनों के लिए बीडीएफ को 3 से बढ़ाकर 4 और मजबूत हाइब्रिड के लिए 2 से घटाकर 1.2 करने का प्रस्ताव रखा गया था। इससे हाइब्रिड वाहनों के लिए निवम इसस हाइश्रद्ध बाहना का लए निवम कड़े होते और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाहनों को लाभ मिलता। मगर सितंबर 2025 के मसीदें में इलेक्ट्रिक बाहनों के लिए बीडीएफ को 3 और मजबूत हाइग्रिड के लिए 2 रखा गया, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार ने मजबूत हाइब्रिड के लिए अधिक अनुकूल नियम बनाए रखने का फैसला किया है।

खन का फसला किया है। इसके अलावा सितंबर के मसौदे हैं कहा गया है कि यदि मजबृत हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल पर चलने में सक्षम है तो इसका वीडीएफ 2.5 तक बढ़ जाता है, जिससे इसे और भी अधिक सहत मिलती है।

इसके साथ ही बीईई ने कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर (सीएनएफ) भी पेश किया है, जो ईंधन के प्रकार के आधार उत्सर्जन में छूट देती है।

### बू बू लैंड कर रही भारत आने की तैयारी

मुंबई, 2 नवंबर

दुखई मॉल में मौजूद बच्चों के लक्जरी मनोरंजन रथल बू बू लैंड के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद है। संभावना है कि इसकी शुरुआत का उम्माद है। संभावना है कि इसका शुरुआत साल 2026 तक मुंबई के लक्जरी शॉपिंग मॉल जियो बर्ल्ड प्लाजा में होगी।

बू बू लैंड बच्चों के लिए इनडोर लक्जरी मनोरंजन स्थल है। इसमें एक से आठ साल तक के बच्चों के लिए इंटरैक्टिव गतिविधियां होती हैं। इनमें प्ले जोन और विभिन्न रचनात्मक कार्यशालाएं भी शामिल हैं। भारत की विकास गाधा और टेंश में उपधोक्ता स्वर्च के स्वरूप की देखते हुए बू बू लैंड के प्रबंध निदेशक सलिल मलिक ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि उन्हें लगता है कि बाजार में प्रवेश करने का यह सही वक्त है। उन्होंने कहा, 'व्यावहारिकता का अध्ययन करने के बाद हमें लगा कि बच्चों के लिए हाई-एंड लक्जरी मनोरंजन के बाजार में



बड़ा अंतर है। ( मुंबई के लिए ) करार पहले ही हो चुका है। हम नई दिल्ली, बेंगलूरु, हैदराबाद और चंडीगढ़ की भी योजना बना रहे हैं।' उन्होंने कहा कि ब्रांड की मूल कंपनी इंपीरियल वन भारतीय बाजार में अपने विस्तार पर अयले तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। मुंबई में खू बू लैंड की जगह 12,000 वर्ग फुट में होंगी जबकि ब्रांड अन्य शहरों में अपने लिए औसतन 15,000 से 18,000 वर्ग फुट पर विचार कर रहा है। वैश्विक स्तर पर वू बू लैंड के पास दुबई मॉल में 25,000 वर्ग फुट स्थान है। वहां यह अक्टूबर 2024 में खुला था। एक साल में दुबई के ब ब लैंड में पांच लॉख से ज्यादा मेहमान ऑए। उन्होंने बताया कि भारत में यह प्रारूप अन्य देशों की तरह ही रहेगा। लेकिन जगह का आकार

छोटा होगा। हालांकि जियो वर्ल्ड प्लाजा की जगह कुछ अलग और अधिक प्रीमियम व उन्नत होगी। इसलिए वहां टिकट की कीमतें अधिक होने की संभावना है। भारत में स्कल दिए कंपनी के लिए राजस्य के प्रमुख स्रोतों में से एक होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'इस परियोजना ान का उम्माद हा उन्होंने कहा, इस पारवाजना ( मुंबई) में कुछ अनुटी गतिविधियां होंगी और भारत के अन्य आयोजन स्थलों की तुलना में इसका पूंजीगत् व्यय अधिक होगा!' फिलहाल भारत में बच्चों के मनोरंजन क्षेत्र में अन्य बांड किडजानिया है। भारत में बू बू लैंड को मझोले और छोटे शहरों में नए मॉल के विकास के साथ कई अवसर नजर आ रहे हैं।

#### OSBI

। रेजोल्यूशन प्रुप, कॉरपोरे वर्ल्ड ट्रेड केंद्र, कफ परेड

पि स्टेट बैंक पात्र प्रतिमाणियों से, मारतिय रिक्व बैंक / अन्य नियामको द्वारा ज विनेयमों के अधीन, 20 (बीस) खाते के दें4.72 करोड़ (मात्र चार करोड़ बहलर ता ) के मूल गिंगी आधारिक बालायों के स्टेटबर जीन एक्सपोगर के हस्ताराय हुंत 'वैशा हैं, ''बेसा हैं बार हैं', 'जो सुक्त हैं हों, 'के' किना कियो जानवाधिक के आधार प लामी के माध्यम से, शरीब की अमिक्योंके (ईओआई) आमेरित करता हैं।

हु-नाजाना कमाध्यम में, लोग बंध आमशाती (हुआआई) अमाधात सरावारी हैं। अपी हुख्युक क्या इंग्लिमामीजों अंतुन्तेश्व हैं कि में "पिक्षी आमिशाति के माध्यम में हु-नीजानी में मान लेने कि लिए अमनी हुख्य प्रस्तुत करें, यह प्रतिमाणिय के सातार हैं कि तो है कि में हैं नाजी कि तातार की लाग है नाजी कि माधाति में हैं तो हु यहां है-नी हुख्या है-नीड निकारित करें। यदि नैर-प्रसादित्य स्थानीत हों होता है नीड है तो हुख्या है-नीड मानीई दिवान-प्रदेशित द्वारा हों नीड हों। स्थान कि सी है वह स्थान में मानी है का मानीई हों। पिक्स प्री मानीई प्रतादित्य हैं की in the neero-Nucleon Notices ANC & DATE में पिक्स पर निकार करें (क्या निद्धा)

पया ध्यान दें कि बैंक किसी भी चरण पर प्रस्तावित ई-नीलाणी को आगे न बढ़ाने ब ज्योग ने पित्र क्षा क्षा किसी भी नियान व वहाँ में बिना कोई कारण कराए कराना करने जिसकार सुरक्षित रखता है, ऐसे क्षित्रों में बदलक की सूचना <u>https://bank.sb</u> बहुद पर '5Bi in the news > Auction Notices > ARC & DRT' सियों की उस्ति किस सूचना (Corrigendum) के रूपने में कुएती, इस संबंध में बैंक का मिर्पय अधिन

#### रॉयल एनफील्ड की बिक्री 13 प्रतिशत बढी

प्रीमियम मोटरसाइकल बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री अक्टूबर में 13 प्रतिशत बढ़कर 1,24,951 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 1.10.574 इकाई बेची थीं। रॉयल एनफील्ड ने रविवार को बयान में कहा कि घरेलू बिक्री इस अक्टूबर में बढकर 1.16.844 इकाई हो गई. अक्टबर, 2024 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 101,886 इकाई बेची थीं। कंपनी ने कहा कि हालांकि, अक्टबर, 2025 में उसका निर्यात सात प्रतिशत घटकर 8,107 इकाई रह गया, जो पिछले साल इसी इसी अवधि में 8,688 इकाई था। आवशर मोटसं लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्य अधिकारी थी गोविंदराजन ने कहा कि त्योहारी उत्साह के कारण देश भर से ग्राहकों की ओर से जबरदस्त

#### ओयो ने बोनस शेयर के लिए समयसीमा बढाई

ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म ओवो ने अपने गैर-सृचीबद्ध इक्विटी शेयरधारकों के लिए संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( आईपीओ ) से संबंधित बोनस शेवर जारी करने के आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर से बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है। कंपनी ने शेयरधारकों को भेजे संदेश में कहा कि राक मतपत्र प्रक्रिया के दौरान उसे प्रतिक्रियाएं मिली हैं और उसने निवेशकों को उनके लिए उपयक्त बोनस विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया है। ओयो ने कहा, 'चयन की अवधि, जो मूल रूप से 1 नवंबर को समाप्त होने वाली थीं, वह अब नी दिन बढ़ाकर 7 नवंबर, 2025

### जीएसटी में सुधार से मारुति की पेय पदार्थों की बिक्री सितंबर तिमाही में छोटी कारों की बिक्री को रफ्तार

मुंबई, 2 नवंबर

एसटी सुधारों के बाद एसटा सुधारा क बाच मारुति सुजूकी इंडिया में छोटी कारों की हिस्सेदारी में तेजी से इजाफा हुआ है। देश की इस सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी को इस त्योहारी सीजन में नए ग्राहकों की कतार देखने को मिल रही है। ये ये ग्राहक हैं जो हालिया कर कटौती से उत्साहित होकर दोपहिया वाहनों से अपनी पहली कार लेना चाहते हैं। मारुति सुजूकी इंडिया के वरिष्ठ कार्य अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थी बनर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि जीएसटी सुधारों के बाद छोटी कारों में खुदरा हिस्सेदारी 20.5 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। अप्रैल से सितंबर की अवधि में यह 16.7 प्रतिशत थी।

उन्होंने कहा कि छोटी कार श्रेणी में बुकिंग सबसे ज्वादा रही है। उन्हें अपने शोरूमों में नए प्रोफाइल वाले ग्राहक आते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'डीलरों के यहां मेजों पर हेलमेट रखे हुए हैं। हमारे शोरूम में ग्राहकों का ऐसा नया समूह आ रहा है, जो अपने दोपहिया वाहनों से अपग्रेड करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 हमारे शोरूम में यही लोगों को ला रहा है और इनमें से कुछ लोग इससे पहले कभी शोरूम नहीं आए थे।

बनर्जी ने कहा, 'हमारे पास मिनी-श्रेणी वाली कारों ( ऑल्टो और एस-प्रेसो) के

#### नए ग्राहकों की संख्या में हुआ इजाफा

- हालिया कर कटौती से उत्साहित होकर दोपहिया वाहनों से अपनी पहली कार लेना चाह रहे ग्राहक
- जीएसटी सुधारों के बाद मारुति की छोटी कारों में खुदरा हिस्सेदारी 20.5 प्रतिशत तक बढ़ी, अप्रैल से सितंबर की अवधि में यह 16 7 प्रतिशत थी
- इस रुझान से उत्साहित होकर कंपनी नया अभियान 'प्रगति का त्योहार' शुरू कर रही है ताकि नए खरीदार पूरा कर सकें अपना सपना
- इसके तहत कंपनी उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए फाइनेंसरों के साथ कर रही गढजोड़

लिए 25,847 बुकिंग थी और उत्पादन

की कमी के कारण हम केवल 15,700 गाड़ियों की ही खुदरा बिक्री कर पाए।

तत्पादन टीम बाजार की पिछली मांग के

आधार पर अनुमान लगाती है और रातोर

लाइन क्षमता बदलना संभव नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल छोटी कार वाली श्रेणी में बुकिंग

हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ग्राहकों की

खासी ज्वादा रही है। उन्होंने कहा,

प्रतिशत जीएसटी स्लैब (चार मीटर से कम लंबाई के साथ पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी और डीजल के लिए 1,500 सीसी तक के इंजन वाली श्रेणी ) के तहत आने गरों की बुकिंग में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बड़ी कारों की बकिंग में 20 मृत्य पुर का पड़ा कार्रा कर पुनर में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जो 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती हैं। इस रुझान से उत्साहित होकर कंपनी नया अभिवान 'प्रगति का त्योहार' शुरू कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किवा जा सके कि

वे नए खरीदार अपने सपने को परा कर सकें। इसके तहत कंपनी उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए फाइनेंसरों के साथ गठजोड़ करेगी। बनर्जी ने कहा 'लोग मोबिलिटी की तलाश में हैं औ दोपहिया वाहन से चार पहिया वाहन में ज रहे हैं। हम शुरुआती स्तर के इन खरीदारों के लिए वित्तीय सहायता की अच्छी योजना देने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंसरों के साथ करार करने के अलाव

# बारिश में फिसली

अक्षरा श्रीवास्तव नई दिल्ली, 2 नवंबर

देश में लंबे समय तक रहे मॉनसून और भारी बारिश ने पेय पदार्थों के बाजार को प्रभावित किया, जिससे संगठित क्षेत्र की कंपनियों की विक्री में गिरावट आई। अटलांटा की पेय पदार्थ क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोका कोला के मामले में भारत में खराब मौसम की वजह से बिकी में गिरावट आई। कोका कोला के मुख्य परिचालन

अधिकारी हेनरिक ब्राउन ने कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान करने के बाद विश्लेषकों को बताया 'पशिया प्रशांत क्षेत्र हे बताया, एएशया प्रशात क्षत्र स् प्रत्येक परिचालन इकाई की बिक्री में गिरावट आई, जिसकी वजह उपभोवता खर्च में कमी, उद्योग का कमजोर प्रदर्शन तथा भारत व फिलीपींस जैसे कुछ बाजारों में खराव मौसम रहा।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में कंपनी के यनिट केस वॉल्यम में एक प्रतिशत की गिराबट आई। अलबता इस बीच कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी जेम्स क्विंसी ने कहा कि भारत में आने वाले वर्षों में बिक्री में युद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं। प्रतिस्पर्धी कंपनी पेप्सिको की

विकी को भी देश में लंबे समय तक रहे गॉनसून से झदका लगा। कंपनी ने कोला बाजार में बढ़ती प्रतिस्पध की ओर भी इशारा किया, जिससे बिक्री पर और असर पड़ा।

6 सितंबर को समाप्त हुए 12 सप्ताह के दौरान कंपनी के अंतरराष्ट्रीय पेय कारोबार की श्रेणी में यनिट वॉल्यम एक प्रतिशत की गिराबट आई। कंपन ने कहा कि यह मुख्य रूप से मेक्सिको और भारत में गेरावट को दर्शाती है. जिसकी कछ हद तक भरपाई पश्चिम एशियाँ में

वृद्धि से हुई। पेप्सिको के चेयरमैन और मुख्य



कोका कोला और पेप्सिको की बिकी को देश में लंबे समय तक रहे मॉनसन से झटका लगा

कार्य अधिकारी रेमन लैगुआर्टा ने अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद विश्लेषकों को बताया था, 'हम भारत में वृद्धि देख रहे हैं। भारत पर मौसम का ज्यादा असर पड़ा है और पेय श्रेणी में कुछ प्रतिस्पर्धी स्थिति है, जिसका असर शाबद कुछ तिमाहियों तक वृद्धि पर पड़ेगा, लेकिन फिर भी यह मजबूती से वापमी करेगी।

भारत में पेप्सिको की बोतल बनाने वाली कंपनी वरुण बेवरेजिज ने भी इस बात पर सहमति जताई। प्रबंधन ने पिछले सप्ताह तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा, 'पूरे भारत में लंबे समय तक की बारिश के कारण घरेलू बिक्री कम रही।'

वरुण बेवरेजिज के चेवरमैन रवि जवपुरिया ने विश्लेषकों के नतीजों के बाद बातचीत के दौरान कहा, 'मौसम अब भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जहां कहीं भी मौसम में कुछ राहत मिली है, हम दो अंकों की वृद्धि दर से बढ़ रहे हैं, यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में खराब मौसम के बावजद भी।

### और भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी रही है। एचएफएस रिसर्च के मुख्य कार्याधिकारी फिल फर्स्ट ने कहा, 'रवि के नेतृत्व में कॉम्पिजेंट के

### समाधानों के साथ डिजिटल बनियादी हांचे के

सरकारी स्वामित्व वाली गैर-वैंकिंग विलीय कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में ब्रुकफील्ड के स्वामित्व वाली परियोजना के लिए 7,500 करोड़ रुपये की विलीय सहायता को मंजरी टी है। उन्होंग के विशेषजों का कहना है कि यह किसी निजी परियोजना के लिए आरईसी द्वारा दी गई अब तक की सबसे बड़ी मंज़री है।

ब्रुकफील्ड की परियोजना

करोड की वित्तीय सहायता

को आरईसी से 7.500

तक का सबस बड़ा मजूत है। एवरेन आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 9,910 करोड़ रुपये के निवेश से 1.04 मीमार्वाट की हाइश्रिङ परियोजना विकसित कर रहा है, जिसमें से आरईसी 7,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कुराएगी। एवरेन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का प्लेटफॉर्म है, जिसे ब्रुकफील्ड ने ऐक्सिस एनजीं के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में भारत में शुरू किया है। ब्रुकफील्ड के पास एवरेन की 51.49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसने आंध्र प्रदेश में कुरनूल और

बनाई है।

बुकफील्ड अक्षय ऊर्जा में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों

में से एक है, जिसकी स्थापित क्षमता लगभग 46 गीगावॉट है

तथा करीब 200 गीगावॉट की

तथा कराब 200 गांगावाट का विकास की पाइपलाइन है। इस घटनाक्रम से अवगत सरकारी सूत्रों ने बलाया, 'कुरनूल परियोजना के लिए घनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

वह आरईसी द्वारा किसी निजी

परियोजना के लिए अब तक की

सबसे बड़ी मंजूरी है।

अनंतपुर में फैली 3 गीगावॉट से अधिक क्षमता वाली अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं की योजना सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड

्षित सुरुप्यः, अदिशः-7700 (चीकरण दायित्य एवं प्रक ताओं) विनियमां, 2015 के विन 29 के अनुसार एतदद्वारा सूचना दी : कि 30 सितम्बर, 2025 को स माही एवं छमाही के लिए कंपनी के ल ही बैद्यक कंपनी के पंजीकत कार्याल

नोकः 01.11.2025 ए. एन. साटुका शनः सरपाली कंपनी समित्र

### कुमार के नेतृत्व में कॉग्निजेंट को मिली ताकत

अभीक दास

कॉग्निजेंट का तीसरी तिमाही का मजबूत प्रदर्शन कोग-नजट का तासरा (तमाहा का मजबूत प्रदशन इस बात का संकेत है कि बहु अमेरिकी आईटी कंपनी वर्षों की उथल-पुश्ल के बाद अब मजबूत सुधार की शह पर बढ़ रही है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की है और उसने राजस्व वृद्धि के अनुमान बढ़ाए हैं।

कंपनी अब इस्फ्रीसिस पर अपनी बदत लगभग एक अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए तैयार है जिससे उस रज्ञान को पलटने में मदद मिलेगी कि पिछले कछ वर्षों में दोनों के बीच का अंतर तेजी से

हम होता दिखा था। सिर्फ तीन साल पहले इन्फोसिस ने लगभग बराबरी कर ली थी. जिससे राजस्व का अंतर 3 अस्व डॉलर से घटकर कुछ सौ मिलियन डॉलर रह गया था। लेकिन कॉग्निजेंट का राजस्व वित्त वर्ष (दिसंबर 2024) के अंत में 19.7 अरब डॉलर रहा, जबकि मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इन्फोसिस का राजस्व 19.28 अरब डॉलर था और अब यह अंतर बढ़ने वाला है। नैस्डैक में सुचीबद्ध यह कंपनी ( जो अपने पहले

सीईओ फ्रांसिस्को डिसूजा के नेतृत्व में कभी अग्रणी थी) हाल के वर्षों में ब्रायन हम्फ्रीज के नेतत्व में लडरवड़ा गई और कर्मचारियों की संख्य में बड़ी कमी, नेतृत्व में बदलाव, सौदों में धौमी वृद्धि से जूझती रही। हालांकि, सीईओ रवि कुमार के नेतृत्व में कंपनी का कायाकल्प गति पकड़ता दिख रहा है क्योंकि कंपनी वाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है, बड़े सौदों की रफ्तार बनाए रख रही है और धीरे-धीरे मार्जिन बढ़ा रही है।

कॉग्निजेंट ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजस्व वृद्धि अनुमान को 6-6.3 प्रतिशत तक (स्थिर मुद्रा में) बढ़ा दिया है, जो पहले 4-6 प्रतिशत के दायरे में था। यह वृद्धि एआई-आधारित आधुनिकीकरण पर ग्राहकों के बदते खर्च के कारण संभव हुई है। वृद्धि सभी व्यावसायिक क्षेत्रों

लिए यह एक वास्तविक बदलाव की कहानी है। कंपनी भटकाव के दौर से निकलकर एक स्पष्ट विकास पथ पर आगे बढ़ी है, जिससे मार्जिन, नेतन्त्र का आत्मविश्वास और ग्रहक जहाव में सुधार हुआ है। रवि ने कॉग्निजेंट की कार्यान्वयन लय को फिर से स्थापित किया है, वितरण को स्थिर किया है और उद्देश्य एवं प्रदर्शन के जड़ी संस्कृति को फिर से ऊर्जाबान बनाया है। इसक नतीजा वह हुआ है कि अब कंपनी इन्फोसिस औन टीसीएस के साथ आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही है, न कि उनकी नकल कर रही है।' फिर भी, चुनीतियां बनी हुई हैं। विश्लेषकों का

कहना है कि कॉग्निजेंट को अपनी वृद्धि को और केठना है। के क्यानगढ़िका जनना चूर्या की जार तेज करना होगा और अपने परिचालन मार्जिन को मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत के लाना होगा ताकि वह प्रतिस्पर्धियों से

#### कैफे पर एकमत नहीं ... बेडे के कुल उत्सर्जन में प्रभावी रूप

पृष्ठ 1 का शेष

**जानकारी** के लिए सायम को ईमेल किया गया मगर खबर लिखे जाने क जवाब नहीं आया। सितंबर के मसौदे के अनुसार

छोटी कारें ईधन-बचत तकनीकों जैसे रोजेनरेटिव ब्रेकिंग, स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, कम रोलिंग-रेजिस्टेंस खाले टायर या बेहतर एरोडायनामिक के इस्तेमाल के लिए रियायत का दावा कर सकती हैं। छोटी कार के लिए कुल कटौती 9 ग्राम/किमी तक सीमित है। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा. मानदंडों को पूरा करने वाली छोटी कार इस प्रावधान के तहत पूरे 9 ग्राम का लाभ प्राप्त कर सकती है।

अब वॉल्यूम डीरोगेशन फैक्टर बीडीएफ) को देखें, जो गुणक है जिसका उपयोग किसी विनिर्माता के औसत डाइऑक्साइड उत्सर्जन की गणना में किया जाता है। यह हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक चाहनों जैसे कुछ कम उत्सर्जन वाले वाहनों को एक से अधिक वाहनों के रूप में गिनने की

बड़ क कुल उत्सजन म प्रभावों रूप में कमी आती है और अनुपालन आसान हो जाता है। जुन 2024 के मसौदे में बॉईई ने इलेक्ट्रिक थाहनों के लिए बीडीएफ को 3 से बढ़ाकर 4 और मजबूत हाइब्रिड के लिए 2 से घटाकर 1.2 करने का प्रस्ताव रखा गया था। इससे हाइब्रिड वाहनों के लिए निवम कड़े होते और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को लाभ मिलता। मगर सितंबर 2025 के मसौदे में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वीडीएफ को 3 और मजबूत हाइब्रिड के लिए 2 रखा गया, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार ने मजबूत हाइब्रिड के लिए अधिक अनुकूल नियम बनाए रखने का फैसला किया है।

खन का फसला किया है। इसके अलावा सितंबर के मसौदे हैं कहा गया है कि यदि मजबृत हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल पर चलने में सक्षम है तो इसका वीडीएफ 2.5 तक बढ़ जाता है, जिससे इसे और भी अधिक सहत मिलती है

इसके साथ ही बीईई ने कार्बन खुट्टैलिटी फैक्टर (सीएनएफ) भी पेश किया है, जो ईंधन के प्रकार के आधार उत्सर्जन में छूट देती है।

### भारत के लिए उड़ानें शुरू करेगी फ्लाईडील

बाजार से उत्साहित सऊदी अरब की कंपनी पलाईडील 2026 की पहली तिमाही से मुंबई समेत भारतीय शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। फ्लाईडील के मुख्य कार्य अधिकारी

स्टीयन ग्रीनये ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी हवाई बाजारों में से एक है और यहां उड़ान संचालन के लिए खर्चों पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। फ्लाइंडील आठ वर्षों से अधिक

समय से उड़ान भर रही है और इस वर्ष के अंत तक उसके बेड़े में 46 विमान होने की उम्मीद है। वर्तमान में इसके पास 42 ए320 श्रंखला बॉडी ए330 नियो विमान के ऑर्डर भी दिए हैं, जो जुलाई 2027 से आने शुरू होंगे। ग्रीनवे ने कहा, 'हमारा इरादा अगले साल की पहली तिमाही में भारत में परिचालन शुरू करने का है। हम मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में परिचालन शुरू करने की उम्मीद करते हैं, और साथ ही हमारा ध्यान भारत के दूसरे शहरों पर

विमानन बाजार है और पलाइंडील अपने देश में 25 गंतच्यों को जोड़ता है। ग्रीनवे ने कहा कि फ्लाईडील भारत की किसी घरेलू विमानन कंपनी के साथ कोडशेयर साझेदारी करना चाहती है। कोडशेयर साझेदारी में एक विमानन कंपनी अपने यात्री को एक ही टिकट पर अपनी साझेदार

#### भी होगा। मझे लगता है कि मंबई विमानन कंपनी की उड़ान में यात्रा की अनमति देता है, जिससे कागज पर दुबई की बू बू लैंड कर रही भारत आने की तैयारी

दुखई मॉल में मौजूद बच्चों के लक्जरी मनोरंजन स्थल बू बू लैंड के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद है। संभावना है कि इसकी शुरुआत साल 2026 तक मुंबई के लक्जरी शॉपिंग मॉल जियो चर्ल्ड प्लाजा

यु बू लैंड बच्चों के लिए इनडोर लक्जरी मनोरंजन स्थल है। इसमें एक से आठ साल तक के बच्चों के लिए इंटरैक्टिय मतिविधियां होती हैं। इनमें प्ले जीन और विभिन्न रचनात्मक कार्यशालाएं भी शामिल हैं। भारत रचनात्मक कायशालाएं मा शामल हा भारत की विकास गाथा और देश में उपभोक्ता खर्च के स्वरूप को देखते हुए बू बू लैंड के प्रबंध निदेशक सलिल मुलिक ने बिजानेस स्टैंडर्ड को बताया कि उन्हें लगता है कि बाजार में प्रवेश करने का यह सही वक्त है।

उन्होंने कहा, 'व्यावहारिकता का अध्ययन



बांड की मल कंपनी इंपीरियल वन भारतीय बाजार में अपने विस्तार पर अगले तीन वर्षों के दौरान 110 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है

करने के बाद हमें लगा कि बच्चों के लिए हाई-एंड लक्जरी मनोरंजन के बाजार में बड़ा अंतर है। (मुंबई के लिए) करार पहले ही हो चुका है। हम नई दिल्ली, बेंगलूरु, हैदराबाद और चंडीगढ़ की भी बोजना बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ब्रांड की मूल कंपनी इंपीरियल वन

भारतीय बाजार में अपने विस्तार पर अगरे तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपवे का निवेश करेगी। मुंबई में बू बू लैंड की जगह 12,000 वर्ग फुट में होगी जबकि ब्रांड अन्य शहरों में अपने लिए औसतन 15,000 से 18,000 वर्ग फुट पर विचार कर रहा है। वैश्विक स्तर

पर ब् ब् लैंड के पास दुबई मॉल में 25,000 वर्ग फुट स्थान है। वहां यह अबट्खर 2024 में खुला था। एक साल में दुबई के बू बू लैंड में पांच लाख़ से ज्यादा मेहमान आए।

उन्होंने बताया कि भारत में यह प्रारूप अन्य देशों की तरह ही रहेगा। लेकिन जगह का आकार छोटा होगा। हालांकि जियो वर्ल्ड प्लाजा की जगह कुछ अलग और अधिक प्रीमियम व उन्नत होगी।इसलिए वहां टिकट की कीमतें अधिक होने की संभावना है। भारत में स्कूल ट्रिप कंपनी के लिए राजस्य के प्रमुख स्रोतों में से एक होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'इस परियोजना (मुंबई) में कछ अनठी गतिविधियां होंगी और भारत के अन्य आयोजन स्थलों की तुलना में इसका पूंजीगत व्यय अधिक होगा।' फिलहाल भारत बच्चों के मनोरंजन क्षेत्र में अन्य बांड किडजानिया है। भारत में यू यू लैंड को मझोले और छोटे शहरों में नए मॉल के विकास के साथ कई अवसर नजर आ रहे हैं।

### यह बिज्ञी बैंक परिसर में खुली नीलामी/सील शेंटेशन के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण नीलामी की तिथि

24 सार्वे जीव मुंबई - 400064 सूरत शासा U1-U4, मेट्रो टावर, रिव

पाठ, पु... निवम एवं शर्ते -. न्यता "पाठी हैं, जेसी हैं, और जो भी हैं"

द कपोल को-ऑपरेटिव बॅक लिमिटेड (अ/अ)

चूको बैंक 🍘 UCO BANK

(उप-महाप्रबंधक) सू.प्रौ.वि. - स्वरीद एवं अवसंरचना

सीय स्टेट बैंक पात्र प्रतिभागियों से, भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य निवानकों द्वारा जार

मुर्ख संस्करणः किम्नेस स्टैंड दे पहुंच लिम्टेड क लिए प्रकारक एच मुद्रक स्मीतः अधियन राषुन खेओल द्वस में, दागर मीं डाव प्रहादे लिम्निटेड, 22, दीवा एमआईटीसी, टीटीसी इंडिस्ट्रिक्स परिण, लिग्नु स्मर, दीवा, स्वी मुर्ख-40000 से मुद्रित एच किस्स से हर्ज प्रहादे सिम्निटेड, एवस्स विवेदन एच प्रेशन संदर, विहरूस से सुरिएन के समन्ते भी बी मार्ग वर्ण, मुर्ख-40003 से प्रकारित